



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं० पटना 1195) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

31 अगस्त 2015

सं० 1710—श्री शिव मंदिर (बाला लक्ष्मण मठ) ग्राम—भथाही, अंचल+थाना—जन्दाहा, जिला—वैशाली पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 4170 है।

इस न्यास के संचालन हेतु स्थानीय ग्रामीण जनता द्वारा दिनांक 11.03.2015 को मंदिर प्रांगण में बैठक कर सर्वसम्मति से न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का चयन किया गया तथा समिति की मान्यता हेतु शपथ पत्र के साथ एक आवेदन श्री परमहंस कुमार दिवाकर द्वारा दिनांक 25.05.2015 को दिया गया। स्थानीय लोगों से प्राप्त नामों की सूची भेजते हुए पर्षदीय पत्रांक—913 दिनांक 18.06.15 द्वारा थाना प्रभारी, जन्दाहा से सूची में वर्णित लोगों का चरित्र सत्यापन कर प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया गया। थाना प्रभारी, जन्दाहा से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 10.07.2015 में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित समिति के सदस्यों के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा—32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री शिव मंदिर (बाला लक्ष्मण मठ) ग्राम—भथाही, अंचल+थाना—जन्दाहा, जिला—वैशाली की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री शिव मंदिर (बाला लक्ष्मण मठ) भथाही न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री शिव मंदिर (बाला लक्ष्मण मठ) भथाही न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) श्री उमाकांत साह पे० स्व० अमीर साह	—	अध्यक्ष
(2) श्री युगल किशोर सिंह पे० स्व० रामपरीक्षण सिंह	—	उपाध्यक्ष
(3) श्री परमहंस कुमार दिवाकर पे० स्व० सुखदेव सिंह	—	सचिव
(4) श्री उमाकांत सिंह पे० स्व० सुखदेव सिंह	—	कोषाध्यक्ष
(5) श्री कैलास सहनी पे० स्व० सौदागर सहनी	—	सदस्य
(6) श्री शिव चन्द्र सहनी पे० स्व० शिवमंगल सहनी	—	सदस्य
(7) श्री महेश्वर सिंह पे० स्व० दारोगा सिंह	—	सदस्य
(8) श्री सतीश प्रसाद सिंह उर्फ बबलू पे० श्री चन्द्रशेखर सिंह	—	सदस्य
(9) श्री मिथलेश कुमार पे० श्री जयनन्दन शर्मा	—	सदस्य
(10) श्री अरुण साह पे० स्व० विशुन साह	—	सदस्य
(11) श्री विगन राम पे० स्व० रामस्वरूप राम	—	सदस्य

उपरोक्त सभी का पता :- ग्राम+पो०-भथाही, अंचल+थाना-जन्दाहा, जिला-वैशाली।

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 1.9.2015 से पाँच वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यों की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल की निरन्तरता कायम रहेगी।।

आदेश से,  
किशोर कुणाल,  
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1195-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>